



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

*Published by Authority*

भाद्र 26, मंगलवार, शके 1941-सितम्बर 17, 2019  
*Bhadra 26, Tuesday, Saka 1941-September 17, 2019*

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 13, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/10366** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Weir has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Weir. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका वैर (भरतपुर) राजस्थान

प्रपत्र क

वार्ड संख्या - 1

भुसावर गेट की पुलिया से तरफ पूर्व को सडक-सडक चलकर मंगल माली की चक्की को शामिल करते हुए भुसावर गेट में घुसकर अमर सिंह शर्मा के मकान किशोर पंडा का मकान को शामिल कर नत्थी कटारा की नई हवेली को शामिल कर तरफ उत्तर को रामसिंह दुकान के मकान को शामिल कर पाच्या माली की वैर के सामने होतु हुए पाच्याराम भरोसी के मकान को शामिल करते हुए विजय कलहार के मकान को शामिल करते हुए उत्तर की ओर चलकर धर्मो नाई के मकान को शामिल करते हुए किशनलाल माली के मकान के सामने होकर हलैना रोड पर चलकर तरफ पश्चिम को ग्रेवल सडक पर चलकर नरी-नरी चलकर तरफ पश्चिम को भुसावर गेट की पुलिया तक

वार्ड संख्या - 2

लालचन्द्र बंध से चलकर पूर्व की तरफ बिजली घर को शामिल करते हुए व पशु चिकित्सालय को शामिल करते हुए रामभरोसी खाती के घर को शामिल करते हुए एवं भुसावर गेट की श्मशान को शामिल करते हुए नगरपालिका कार्यालय को शामिल करते हुए नरी-नरी तरफ उत्तर को चलकर कच्छा वाले हनुमान जी से ग्रेवल सडक पर चलकर दोनों ओर की आबादी को शामिल करते हुए भोपर रोड पर चढकर तरफ पश्चिम की ओर दोनों तरफ की आबादी को शामिल करते हुए श्याम लाल हरीसिंह के सामने वाले मकानों को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण की ओर खेतों की मेड मेड

चलकर गोपीपुरा को शामिल करते हुए भुसावर रोड पर चढकर कैला के कुआ को शामिल करते हुए लालचन्द बंध पर चढकर पूर्व की तरफ बायी ओर की मैनावास की सम्पूर्ण आबादी को शामिल करते हुए रायपुर रोड बिजली घर तक

#### वार्ड संख्या 3

भुसावर गेट के तिराहे से तरफ बायी ओर की आबादी को शामिल कर दक्षिण को सडक सडक चलकर डाक बगला अम्बेडकर भवन को शामिल करते हुए रायपुर रोड पर चलकर तहसील एसडीओ कोर्ट छात्रावास को शामिल करते हुए सडक सडक दक्षिण की तरफ बायी तरफ की बादी को शामिल करते हुए कोटा पट्टी बंध पर चढकर तरफ पूर्व को चलते हुए बंध से नीचे उतरकर तरफ उत्तर को चलकर बायी ओर की आबादी सियाराम नन्दराम धाकड बगैरा को शामिल करते हुए गरीबदास की मोरी को शामिल करते हुए तहसील कार्यालय के पीछे समस्त आबादी को को शामिल करते हुए बालाद्वारी को शामिल करते हुए नरी नरी चलकर थाने का शामिल करते हुए वैर बयाना रोड पर चढकर श्रवण कुमार के मकान को शामिल करते हुए राधाकृष्ण के मकान को शामिल करते हुए गंगाराम धाकड के मकान को शामिल करते हुए पीछे होकर बालिका सरकारी स्कूल को शामिल करते हुए रामदयाल सैनी के मकान को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम की ओर चलकर ओमप्रकाश जांगिड के मकान को शामिल करते हुए रामफूल के मकान को शामिल करते हुए भुसावर रोड पर चढकर तरफ पश्चिम चलकर भुसावर गेट तिराहे तक

#### वार्ड संख्या 4

कच्छा वाले हनुमान जी के मन्दिर को शामिल करते हुए गंगाराम के मकान के सामने गली में चलकर तरफ पश्चिम में चलकर पूरन सैनी के मकान को शामिल करते हुए छिददा नाई के मकान को शामिल करते हुए दायी तरफ चलकर सडक पर चढकर तरफ पूर्व को सडक सडक चलकर भुसावर गेट में घुसकर पूर्व का सडक सडक चलकर दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुए सीताराम जी के मन्दिर को शामिल करते हुए बाबू वैश्य की दुकान को शामिल करते हुए छीपियों के मन्दिर को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को तवेले वाले हनुमान जी को शामिल करते हुए नहर के किनारे किनारे मुंसिफ कोट के को शामिल करते हुए तालाब में चलकर भुसावर बयाना रोड पर चढकर तरफ पश्चिम सडक सडक चलकर पदम सैनी महेन्द्र धाकड मन्नु मेहंत की दुकानों को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को सडक सडक चलकर गढ वाले हनुमान जी तक

#### वार्ड संख्या - 5

अग्रवाल की प्रेस की दुकान की तरफ दक्षिण को चलकर हीरालाल की पुरानी हवेली सरस्वती विद्या मन्दिर को शामिल करते हुए जगदीश मास्टर के मकान को शामिल कर ओमी मास्टर पंजाबी की दुकान को शामिल कर तरफ पश्चिम को चलकर बाबू खाती के मकान को शामिल कर छोटेलाल पण्डित के मकान को शामिल कर सडक सडक चलकर परभाती माली की दुकान से उत्तर की ओर सडक सडक चलकर किशोर पन्डा को शामिल कर रूप सिंह नाई के पुराने मकान को शामिल कर भोपर माली की पुरानी हवेली को शामिल कर पाच्या पहलवान की बैठक एवं हंसा खाती की पुराने मकान को शामिल करते हुए तरफ पूर्व को चलकर किरोड पदम माली के मकान को शामिल पर चढकर तरफ उत्तर की ओर तेजसिंह माली के मकान को शामिल कर दायी ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए तरफ पूर्व में महेश डा0 के मकान को शामिल करते हुए परी धोबी के

मकान को शामिल कर कन्जी दर्जी के मकान को शामिल कर गोपाल जी के मन्दिर के सामने होते हुए पूर्व की ओर सोहन टेलर्स की दुकान एवं गौरी की चक्की को शामिल कर अग्रवाल प्रेस तक

वार्ड संख्या - 6

कुन्दन अर्जीनवीस के मकान से तरफ दक्षिण को सड़क चलकर रामाकान्त पाण्डेय के मकान को शामिल करते हुए रास्ते रास्ते चलकर होरीलाल शर्मा के मकान को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को सड़क सड़क चलकर पृथ्वी दर्जी की हवेली को शामिल करते हुए चन्द्रेश पटवारी के मकान को शामिल करते हुए तरफ पूर्व को सड़क सड़क चलकर छिदियों को मन्दिरों के सामने होते हुए तरफ दक्षिण को रास्ते चलते हुए तवेले वाले कुंआ को शामिल करते हुए कोर्ट को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को चलकर मास्टर के मकान को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को चलकर तरफ पूर्व को चलकर भोली धाकड के मकान को शामिल करते हुए माडर्न स्कूल को शामिल करते हुए घनश्याम कोली के मकान को शामिल कर निकलकर छोटी नहर के किनारे किनारे चलकर पुरूशोत्तम नगाचय के मकान को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को सड़क सड़क चलकर किला एवं बाबा मनोहरदास के मन्दिर को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को कश्मीरी नक्षा वाले की दुकान से बाजार बाजार चलकर नगरपालिका को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को बाजार बाजार चलकर कुन्दन अर्जीनवीस तक

वार्ड संख्या - 7

जगदीश सैनी की दुकान से कृषि उपज मण्डी को शामिल कर तरफ दक्षिण को चलकर सड़क-सड़क चलकर चरनसिंह वकील के भवन को शामिल कर तरफ दक्षिण को चलकर तरफ भगवत के मकान को शामिल करते हुए धनीराम के नोहरे को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण की ओर मुडकर दायीं ओर की आबादी को शामिल करते हुए ओमकार धाकड रामजी लाल के मकान को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को चलकर कच्ची सड़क पर चढकर चलते हुए कोटा पट्टी बंध पर चढकर तरफ पश्चिम को बंध बंध चलकर तरफ उत्तर को नकटे हनुमान जी को शामिल करते हुए नरी नरी चलकर बालाद्वारी के पीछे होते हुए शर्मा जी के भट्टे को शामिल करते हुए बयाना भुसावर सड़क पर चलकर तरफ पूर्व को चलकर बादशाह के दुकान को शामिल करते हुए सड़क सड़क चलकर पूर्व तरफ कृषि उपज मण्डी को शामिल करते हुए जगदीश सैनी की दुकान तक

वार्ड संख्या - 8

राजकीय सीनियर स्कूल से तरफ पूर्व को स्कूल की दुकान के सहारे सहारे चलते हुए तरफ उत्तर को धाकड धर्मशाला को शामिल करते हुए सड़क पर चढकर वैर बयाना तरफ पूर्व को सड़क पर चलकर पुलिया लखनपुर पर पहुचकर तरफ दक्षिण को सड़क सड़क चलकर सुखावली वाले के मकानों को शामिल करते हुए लखनपुर वाली सड़क पर चलते चलते मोहनलाल बाबू के ट्यूबवैल को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को रास्ता रासता चलकर नयावास में पहरचकर वायी ओर के कोलियों को तथा दायी ओर के खटीकों को शामिल करते हुए जाटवों को शामिल करते हुए दोनों की आबादियों को शामिल कर सुरेश धाकड के मकान एवं रतन धाकड को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को चलकर भगवान सिंह धाकड के नोहरे को शामिल कर व कुम्हारों को शामिल कर रघुवीर सिंह जादों को के मकानों को शामिल कर तरफ पश्चिम में चलकर नयावास का सीताराम जी मन्दिर को शामिल करते हुए स्कूल को शामिल करते हुए मनीम धाकड के मकान को शामिल करते हुए रोड पर चढकर नकटी देवी मन्दिर को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को सड़क सड़क चलकर बाबू कोली के मकान एवं दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुए सीनियर स्कूल तक

## वार्ड संख्या - 9

मंगल छीपी की दुकान से तरफ पूर्व को सडक सडक चलकर बयाना भुसावर रोड तरफ दक्षिण को मान सिंह पान वाले की दुकान को शामिल करते हुए सीता दरवाजे के पीछे होकर तरफ पूर्व को श्याम धाकड किशन धाकड मोहनलाल खटीक की दुकान को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को सडक बयाना वैर पर चलकर तरफ पूर्व को सडक सडक चलकर लालचन्द लाल की दुकानों को शामिल कर तरफ उत्तर को मोहन अ शोक के मकान को शामिल करते हुए जोगेन्द्र के मकान को शामिल कर तरफ पश्चिम को गली में चलकर मोहनलाल बाबू के मकान को शामिल करते हुए एवं ब्रजलाल की बैठक को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को राजाराम गोविन्द के मकानों को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को नीचे उतर कर तरफ दक्षिण में चलकर लल्लू शक्का शहजाद शक्काओं को शामिल करते हुए रास्ते रास्ते चलकर गिराज शर्मा रामबाबू शर्मा बाबू तेली व मस्जिद को शामिल करते हुए डल्लू नाई की दुकान को शामिल कर वापिस नहर नहर चलकर परभाती का नौहरे से भोजराज का मकान कैलाशी के मकान को शामिल कर गढ पर चढकर विचपुरी पट्टी स्कूल को शामिल कर रमन टाइपिस्ट से लाल चन्द मास्टर के मकान को शामिल कर तरफ पश्चिम को ग्यासी कोली के मकान एवं लच्छी फोटो ग्राफर व खूबीराम मास्टर के मकान को शामिल करते हुए पश्चिम को रोड पर चलकर केशव ग्राम सेवक के मकान को शामिल करते हुए पुरानी मण्डी को शामिल करते हुए पुरानी मण्डी की आबादी को शामिल करते हुए तालाब की दीवार पर चलकर पीतम वकील को नोहरे को शामिल करते हुए मंगल छीपी की दुकान तक

## वार्ड संख्या - 10

टीका धाकड के मकान को शामिल कर तरफ उत्तर को चलकर रतन धाकड के मकान शामिल कर तरफ पश्चिम में गली में चलकर नत्थीलाल धाकड परभाती धाकड को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को चलकर फत्ते नाईयों के मकानों को शामिल करते हुए उत्तर को चलकर पप्पू सुक्का के मकान को शामिल करते हुए वकील धाकड की बैठक एवं देवीसिंह पार्षद के मकान को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ चलकर दीनू चुडैल को शामिल कर सन्नी मास्टर पंजाबी के मकान को शामिल कर तरफ दक्षिण को भगवानस्वरूप को शामिल कर तारा शर्मा के मकानों को शामिल करते हुए बयाया भुसावर रोड पर चढकर तरफ पश्चिम को चलकर धर्म के मकान को शामिल कर टीका धाकड के मकान तक

## वार्ड संख्या - 11

सतीश की टाल से चलकर उत्तर की तरफ को गयाराम शास्त्री के मकान को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को कृष्णा डाक्टर के मकान को शामिल एवं केदार के मकान शामिल करते हुए तरफ उत्तर का सडक सडक चलकर दिनेश गर्ग के मकान को शामिल करते हुए फर्श पर उतर बट्टी प्रसाद पटवारी के मकान को शामिल करते हुए तरफ पूर्व को चलकर राममोहन वैद्य के मकान को शामिल करते हुए रास्ते रास्ते चलकर तरफ उत्तर मे रामकिशन मिश्रा के मकान को शामिल कर तरफ पूर्व को रास्ते रास्ते चलकर रामसिंह बनखान के मकान को शामिल करते हुए। मंगतू खाती के मकान को शामिल करते हुए पुरानी सडक पर चढकर तरफ पश्चिम को सडक सडक चलकर रामस्वरूप छवीले की हवेली को शामिल कर चन्द्रशेखर धाकड की दुकान को शामिल करते हुए सतीश की टाल तक।

## वार्ड संख्या - 12

हरि हलवाई की दुकान से तरफ उत्तर को छोटेलाल की दुकान को शामिल करते हुए तरफ पूर्व को चलकर श्याम गोपाल की एसटीडी को शामिल कर बिन्दु सलीम के मकान को शामिल कर लच्छी टर्रा के मकान को शामिल कर बबलू कडी वाले के नौहरे को शामिल कर उत्तर को रास्ते रास्ते चलकर भागी चैबदार के मकान को शामिल कर तरफ पूर्व को चलकर अनिल मास्टर के मकान को शामिल कर तरफ दक्षिण को रास्ते रास्ते चलकर हन्डू चैबदार के मकान को शामिल कर नैमी सेठ के मकान को शामिल कर तरफ दक्षिण को गली में होते हुए रामस्वरूप पुजारी के मकान को शामिल कर जैन मन्दिर को शामिल कर तरफ दक्षिण को मुनीर खा के मकान को शामिल कर गिराजमाली रामसिंह माली के मकान को शामिल कर जैन मंदिर के पीछे होते हुए पश्चिम को चलकर गली गली चलकर रामरतन के मकान के सामने होकर तरफ दक्षिण को चलकर बलदेव एवं गिरधारी वैश्य के मकान को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को सडक सडक चलकर दामोदर पटवारी के मकान को शामिल करते हुए तरफ पूर्व को चलकर सडक सडक तरफ दक्षिण को सडकर सडकर चलकर पुरानी सडक पर चढकर तरफ पश्चिम को चलते हुए प्रहलाद पटवारी के मकान को व पूरन मास्टर के मकान को शामिल करते हुए दायी ओर की समस्त आवादी को शामिल करते हुए हरि हलवाई की दुकान तक।

## वार्ड संख्या - 13

बद्री पटवारी की बैठक को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को रास्ते रास्ते चलकर रामरतन मास्टर को शामिल करते हुए तरफ पूर्व को जैन मन्दिर के पीछे गली में चलकर गिराज रामसिंह के सामने होते हुए रास्ते रास्ते दायी ओर की आवादी को शामिल करते हुए बटरा गद्दी के मकान को शामिल करते हुए रास्ते रास्ते चलकर जोरावर की दुकान को शामिल करते हुए तरफ दक्षिण को रास्ते रास्ते चलकर रमजानी गद्दी कके मकान को शामिल करते हुए गिरधारी नगायच की हवेली को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को झम्मन गद्दी के नौहरे को शामिल करते हुए तरफ उत्तर को चलकर जगमोहन दत्तात्रेय को शामिल करते हुए रास्ते रास्ते चलकर बद्री पटवारी की बैठक तक।

## वार्ड संख्या - 14

दीनदयाल पटवारी के मकान को शामिल कर तरफ उत्तर को सडक सडक चलकर सडक पर चलते हुये तरफ पूर्व को चलकर महेन्द्र छवीले के मकान को शामिल कर छीपियों के मन्दिर को शामिल कर बयाना दरवाजे में होर बाबू के मकान को शामिल कर पूर्व को सडक सडक चलकर चुंगी नाके को शामिल कर बयाना दरवाजे के श्मशानों को शामिल कर सडक सडक चलकर हीजडा को शामिल कर दाई ओर की आबादी को एवं बायी ओर की आवादी खूबी वगैरा सैनी को शामिल कर सुहांस राजगढ रोड पर चलकर दायी ओर की आबादी को शामिल कर पुलिया पर से चल कर नरची नरची तरफ दक्षिण को चलकर बयाना रोड पर चढ कर पूर्व की ओर अस्तल वाले हनुमान जी को शामिल कर कंचनपुरा को शामिल कर शुक्ला वारी पहरियां को शामिल कर रास्ते रास्ते चलकर लखनपुर वाली सडक पर चलकर वारह खम्बा को शामिल कर तरफ उत्तर को सडक सडक चलकर बयाना वाली सडक पर चढकर तरफ पश्चिम को चलकर दीनदयाल पटवारी के मकान तक।

## वार्ड संख्या - 15

गंगाजी मन्दिर से तरफ पूर्व चलकर गुलटिया माली के मकान को शामिल करते हुए रास्ता चलकर महादेव मन्दिर हैण्डपम्प से चलकर तरफ दक्षिण का चलकर संजय हरिजन मकान शामिल करते हुए वैर बयाना रोड पर चढकर ब्रजमोहन हरिजन के मकान को शामिल करते हुए बयाना दरवाजे में अन्दर होर पन्ना धीमर रतन धोवी नत्थी तेली व पीतम बिजली वाले के मकान को शामिल करते हुए तरफ उत्तर की ओर गंगाजी मन्दिर तक।

## वार्ड संख्या - 16

कुन्दन जाटव के मकान से तरफ उत्तर को चलकर फूलसिंह मैम्बर के मकान को शामिल कर तरफ उत्तर को चलकर बलमत जाटव के मकान को शामिल तरफ पूर्व चलकर गेंदा मास्टर के वोर को शामिल करते हुए नरची नरची चलते हुए कढी वाली बगीची को शामिल करते हुए बोहरे तेली एवं नत्थी तेली की दुकान शामिल करते हुए हरिसिंह पीतम वगैरहा व जगदीश पण्डित तरफ उत्तर चलकर जाटवों की आबादी को शामिल करते हुए तरफ पश्चिम को चलकर कुन्दन के मकान तक।

## वार्ड संख्या - 17

अर्जुन माली के मकान से तरफ उत्तर को चलकर नन्दराम कोली के मकान को शामिल कर गढ के कोलियो को शामिल कर मनोहरी की चक्की को शामिल कर तरफ उत्तर को चलते चलते रेवती कोली को शामिल कर दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुये रामस्वरूप पुजारी के मकान को शामिल करते हुए वझेरे वाली सडक सडक चलकर कढाई वाले के मकान को शामिल कर वापिस सडकर सडक चलकर तरफ दक्षिण को राजबहादुर पार्षद के मकान को शामिल कर फूलसिंह कुम्हार को शामिल कर समस्त हरिजन बस्ती को शामिल करते हुये तरफ पूर्व को चलकर जटपुरा वाले मालियां को, बंशी माली के बोर को शामिल कर मुडकर तरफ पश्चिम को चलकर जती वाली की समस्त आबादी को शामिल करते हुये जाटवो के शिवालय को शामिल कर तरफ पश्चिम को चलकर भूरिया के मकान को शामिल कर आमीन खां के नौहरे को शामिल कर तरफ उत्तर को सडक सडक चलकर अर्जुन माली के मकान तक।

## वार्ड संख्या - 18

दलबीर के मकान से तरफ उत्तर को गली में चलकर गणेश कोली के मकान को शामिल कर बाबू कोली के मकान को शामिल कर तरफ उत्तर सडकर सडक चलकर माहन लाल कोली की दुकान को शामिल कर दायी ओर की आबादी को शामिल कर सुगराती फकीर को शामिल कर रामसिंह पिलपिली के मकान को शामिल कर तरफ पूर्व को सडक सडक चलकर चैखे कोली के मकान को शामिल कर इन्दर कोली के मकान को शामिल कर दायी ओर की कोलियों को शामिल कर तरफ दक्षिण को चलकर कन्ना कोली के मकान को शामिल कर दक्षिण को रास्ते रास्ते चलकर न्यौठा वाले कुम्हार को शामिल कर पश्चिम को रास्ते रास्ते चलकर लाठा के स्कूल को शामिल कर दलवीर के मकान तक।

## वार्ड संख्या - 19

शिवालय से तरफ पश्चिम को चलकर गढ के कोलियों को शामिल कर कोलियों की अथाई को शामिल कर तरफ दक्षिण को चलकर देवी की पथवारी को शामिल कर रामजानी गद्दी के मकान गोरधन कोली की हवेली को शामिल कर तरफ पश्चिम को चलकर जगदीश मिश्रा के मकान को शामिल कर नग्गो नाई के नौहरे को शामिल कर तरफ उत्तर को चलकर पप्पल नाई के मकान को शामिल कर भरतपुर गेट के घुसकर नवीन स्कूल को शामिल कर ओमी के बोर को शामिल करते हुये सडक सडक चलकर सोहन माली के खेत की आबादी को शामिल कर वाबडी वाले हनुमान के तिराये तक तिराये से वापिस सडक सडक चलकर ओमी के बोर के सामने होते हुये तरफ पूर्व को वझरे वाले रोड पर चलकर तरफ दक्षिण को मुड कर देवीसिंह जटपुरा वाले को शामिल कर मोतीराम मास्टर के मकान को शामिल कर शिवालय तक।

#### वार्ड संख्या - 20

भरतपुर दरवाजे के अन्दर की तरफ पश्चिम की ओर चलकर रामदयाल नाई के मकान को शामिल करते हुए ओमप्रकाश अजरोदा के मकान का शामिल कर राधाकिशन मकान के उत्तर की ओर चलकर हरिजन (दायी ओर) बस्ती को शामिल करते हुए झब्बू माली के मकान को शामिल कर हलैना रोड पर चलकर उत्तर की ओर चलकर धाकड मैरिज होम को शामिल कर शमशान घाट को शामिल करते हुए पुलिया पर चलकर तरफ दक्षिण की ओर सडक सडक चलकर दायी ओर की समस्त आबादी को शामिल करते हुए आदर्श विद्या मन्दिर एवं कुन्दन तेजा को एवं हरिजन बस्ती को शामिल करते हुए भरतपुर गेट तक।

#### वार्ड संख्या - 21

पुराने थाने से उत्तर की ओर सडक सडक चलते हुये दायी ओर की आबादी को शामिल करते हुए हरीराम गैडा के पुराने मकान शामिल करते हुए तरफ पूर्व को चलकर सुभाष बण्डा के मकान को शामिल करते हुए भग्गो नाई के मकान के सामने से तरफ पूर्व को चलकर बनवारी वण्डा के मकान को शामिल कर तरफ पूर्व को बृजमोहन नाई के मकान को शामिल कर गोपाल चैबदार के मकान को शामिल कर तरफ दक्षिण को मुडकर बाबू टर्का को शामिल कर गली मे चलकर रामभरोसी कलहार एवं शफूर लुहार को शामिल कर तरफ पश्चिम की ओर मुसलमानों की दुकानों को शामिल कर ओमी अजरौदा एवं दुर्गा की दुकान को शामिल कर दायी ओर की समस्त आबादी को शामिल कर तरफ पश्चिम को सडक सडक चलकर पूरन जैन की दुकान को शामिल कर पुराने थाने तक।

#### वार्ड संख्या - 22

पुराने थाने से तरफ पश्चिम को सडक सडक चलकर पूरन बल्लभगढिया की दुकान और गोपाल डॉक्टर के मकान को शामिल करते हुये तरफ उत्तर को चलकर रामभरोसी टोडे वाले की पुरानी हवेली को शामिल कर महादेव मन्दिर को शामिल कर अचल गुड्डू के पुराने मकान को शामिल करते हुये बल्ला धाकड के मकान को शामिल कर तरफ पूर्व को चलकर राधा किशन के मकान को शामिल कर केशव सुनार के मकान को शामिल कर अमरी मास्टर की दुकान को शामिल कर पुराने थाने तक।

#### वार्ड संख्या - 23

कुम्हेर गेट से तरफ दक्षिण को सडक सडक चलकर खपाटिया के मन्दिर को शामिल कर चिडिया ठेकेदार की पुरानी हवेली को शामिल कर पूरन रपटनी के मकान को शामिल कर तरफ पूर्व को सडकर सडक चलकर किशन लाल कुम्हार की दुकान मकान को शामिल कर नत्थी मास्टर की

दुकान को शामिल कर लक्ष्मण मास्टर की हवेली को शामिल कर जगदीश पर्ता के मकान को शामिल कर झण्डू पुरारी को सामिल कर विजेन्द्र पटवारी के मकान को शामिल कर तरफ उत्तर को चलकर गोपाल गूजर, मालियों के मकान को शामिल कर कल्ला माली की दुकान को शामिल कर तरफ पश्चिम को चलकर हेतराम माली भवानी माली के मकान को शामिल कर कुम्हेर गेट तक।

वार्ड संख्या - 24

गोपालजी के मन्दिर से तरफ पश्चिम को चलकर हरी अमरचन्द नाई के मकान को शामिल कर प्रहलाद धोवी, चरन मास्टर के मकान को शामिल कर मुरारी धाकड के मकान को शामिल कर तरफ उत्तर की सडक सडक चलकर समन्दर गुर्जर के मकान को शामिल कर किशन लाल माली के मकान को शामिल कर वैर हलैना रोड पर चढकर तरफ पूर्व को सडक सडक चलकर फायर स्टेशन को शामिल कर प्रभू माली के मकान को शामिल कर तरफ दक्षिण को चलकर करन सैनी की चक्की को शामिल कर कुम्हेर गेट में घुसकर पोथी माली हवेली को शामिल कर इन्दर माली की बैठक को शामिल कर मोहन खाती की चक्की को शामिल कर गोपालजी मन्दिर तक।

वार्ड संख्या - 25

कच्छा वाले हनुमानजी से तरफ उत्तर को नरी नरी चलकर अर्जुन पार्षद के मकान को शामिल कर दाई ओर की आबादी को शामिल कर समस्त तवरगढ को शामिल कर नरी नरी चलकर तरफ पूर्व को चलकर राजराम हीरा, गुर्जर चन्दर मास्टर समस्त आबादी को शामिल कर तुरसी दास की कुइया को शामिल कर तरफ उत्तर को चलकर मुहारी बंध पर चलकर हलैना रोड पर चढकर मुरली, किशन माली के मकानों को शामिल कर तरफ दक्षिण को चलकर गिरधारी के मकानों को शामिल कर सडक के दोनो तरफ की आबादी को शामिल कर रागैय राघव कॉलेज को शामिल कर बाबडी वाले हनुमानजी को शामिल कर सोमेन्द्र विद्या मन्दिर को शामिल कर कृष्णा मैरिज होम को शामिल कर तरफ पश्चिम को चलकर रामचरन की दुकान को शामिल कर मंगल गुर्जर की टाल को शामिल कर भौडेगांव वाले गुर्जर को शामिल कर कच्छा वाले हनुमान जी तक।

अधिशायी अधिकारी  
नगरपालिका वैर

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।